

आज ही
जुड़ें!!!
या
निःशुल्क नं. पर
सम्पर्क करें
1800-110-069



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अटल पेंशन योजना से जुड़िए!!!



अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाले वृद्धावस्था लाभ, उसमें किये गये छोटे से निवेश से कहीं ज्यादा है!!!

अटल पेंशन योजना क्या है?	किनके लिए?	अटल पेंशन योजना क्यों?	कैसे जुड़ें?
<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार की गारंटीयुक्त पेंशन योजना। अभिदाता को नियमित रूप से एक निश्चित राशि का ही अंशदान करना है। कम से कम प्रति माह 1000—5000 रु. तक की पेंशन गारंटी। परिवार के लिए अधिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पति और पत्नी अटल पेंशन योजना में अलग—अलग खाते खोल सकते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> 18—40 वर्ष तक के सभी भारतीय नागरिक। उपयुक्त आयु समूह के वर्तमान स्वावलम्बन लाभार्थी। जो व्यक्ति आय कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> तीन आश्वस्त लाभ। अभिदाता के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी। अभिदाता के निधन के बाद पति/पत्नी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी। नामिति की 1.70 लाख रु. से 8.50 लाख रु. तक पेंशन राशि। 	<ul style="list-style-type: none"> बैंक से संपर्क करें। अटल पेंशन योजना का सरल पंजीकरण प्रपत्र जमा करें। मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान का भुगतान करें। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

अटल पेंशन योजना सभी के लिए उचित सेवानिवृत्ति विकल्प है!!!